



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1982/चैत्र 10, 1904  
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1982/CHAITRA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विस्तृत संचालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

(बैंकिंग प्रभाग)

का.आ. 221(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1970 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के अनुरोध पर 31 मार्च, 1982 से उत्तर प्रदेश राज्य में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उत्तर प्रदेश के भाँसी और ललितपुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-17/82-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th March, 1982

(Banking Division)

S.O. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1522 GI/81

(357)

1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Punjab National Bank, establishes, with effect from the 31st March, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts Jhansi and Lalitpur in the State Uttar Pradesh.

[No. F. 1-17/82-RRB(I)]

का.आ. 222(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श करके, भाँसी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर रानी लक्ष्मी-बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-17/82-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, by which Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Jhansi as the place where Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-17/82-RRB(II)]

**का.आ. 223(अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में कन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिये, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भामो को प्रादेशिक ग्रामीण बचत अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1-17/82-आर.आर.बी. (3)]

बी. पी. साहनी, सचिव सरकार

**S.O. 223(E).—**In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank, Jhansi being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F 1-17/82-RRB(III)]

V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

**का.आ. 224(अ).—**प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एस. डी. गुप्त को रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भामो का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-3-1982 से प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस. डी. गुप्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1-17/82-आर.आर.बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

**S.O. 224(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. D. Gupta as the Chairman of the Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank, Jhansi and specifies the period commencing on the 31st March, 1982 and ending with 31st March,

1982 as the period for which the said Shri S. D. Gupta shall hold office as such Chairman

[No. F. 1-17/82-RRB(IV)]

RAAM BFHRA, Under Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

बम्बई

बम्बई, 31 मार्च, 1982

**का.आ. 225(अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्—

“रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भामो (उत्तर प्रदेश)”

[आर.पी.सी.सी. संख्या आर.आर.बी. 231/311-82]

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**

(Rural Planning and Credit Cell, Bombay)

Bombay, the 31st March, 1982

**S.O. 225(E).—**In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

“Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank, Jhansi (U.P.)”

[RPCC No. RRB-231/311-82]

H B SHIVAMAGGI, Executive Director